

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3450(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 जुलाई, 1994 की अधिसूचना सं. का.आ. 521(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “सोसायटी फॉर एजुकेशन ऑफ द क्रिपल्ड (चाइल्ड एवं एडल्ट), अग्रीपाडा म्युनिसिपल स्कूल बिल्डिंग, मल्टीवाई स्ट्रीट, बाम्बे-400001” द्वारा “(क) स्वतंत्र रूप से जीवन यापन हेतु सोसायटी फॉर द एजुकेशन ऑफ द क्रिपल्ड सेंटर हेतु साज-सज्जा तथा संचालन करना (ख) सोसायटी फॉर द एजुकेशन ऑफ द क्रिपल्ड, एंटोप हिल स्कूल के लिए साज-सज्जा तथा संचालन करना” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1995-96 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 8 पर विनिर्दिष्ट किया था और जिसे बाद में दिनांक 17 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं. का.आ. 216(अ) के द्वारा निर्धारण वर्ष 1998-99 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 21 सितंबर, 2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 859(अ) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-02 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 09 मई, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 526(अ) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 26.10.2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1826 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन और वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 22 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 658(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 27.12.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2899(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 9 मई, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 526(अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 81.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 175.00 लाख रुपये कर दिया गया था और जबकि दिनांक 12 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 647(अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 175.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 675.00 लाख रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के इक्कीस वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि परियोजना के लिए बढ़ायी गयी निधियों का उपयोग करने के पश्चात तत्काल मामले पर आगामी विस्तार हेतु विचार किया जाएगा;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “सोसायटी फॉर एजुकेशन ऑफ द क्रिपल्ड (चाइल्ड एवं एडल्ट), अग्रीपाडा म्युनिसिपल स्कूल बिल्डिंग, मल्टीवाई स्ट्रीट, बाम्बे-400001” द्वारा चलायी जा रही “(क) स्वतंत्र रूप से जीवन यापन हेतु सोसायटी फॉर द एजुकेशन ऑफ द क्रिपल्ड सेंटर हेतु साज-सज्जा तथा संचालन करना (ख) सोसायटी फॉर द एजुकेशन ऑफ द क्रिपल्ड, एंटोप हिल स्कूल हेतु साज-सज्जा तथा संचालन करना” की परियोजना

अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए 675.00 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 276/2015/फा. सं. वी -27015/4/2015 एस ओ (एन.सी.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)